

सहायतालाइन 1300 368 821

मना करना ठीक है

यदि कोई आपसे कुछ हस्ताक्षर करने या उन्हें कुछ देने के लिए कहता है, तो आपको तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

दबाव कम करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

- कहें कि "मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए।"
- स्पष्ट करें कि आपको इस बारे में पेशेवर सलाह की आवश्यकता है कि इससे आपकी पेंशन, बचत, या दीर्घकालिक योजनाओं पर कैसे प्रभाव पड़ेगा।
- इस बारे में आपको कोई चिंता हो कि इससे आपके रिश्ते कैसे प्रभावित हो सकते हैं, तो उन्हें साझा करें।
- इस बात की महत्ता पहचानें कि कुछ गलत हो सकता है और कहें कि आप अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं।
- समझाएं कि यह भरोसे की कमी के बारे में नहीं है।



A COTA Victoria Program

सहायतालाइन 1300 368 821
seniorsrights.org.au

सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सोमवार-शुक्रवार

उपयोगी संपर्क:

अकाउंटेंट्स और वित्तीय सलाहकार
पारिवारिक समझौतों में मदद के लिए अपने वाले
से संपर्क करें।

Centrelink (सेंटरलिंग)

अपनी पेंशन के किसी भी पहलू की जाँच करने
के लिए MyGov में लॉग इन करें या 132 300 पर
कॉल करें

कम्पास (Compass)

पारिवारिक समझौतों के नमूनों और जानकारी के
लिए www.compass.info पर जाएँ

फैडरेशन ऑफ कम्युनिटी लीगल सैन्टर्स

यह फैडरेशन, विक्टोरिया के सामुदायिक
कानूनी केंद्रों और एबोरीजनल लीगल
सर्विसेज़ का सर्वोच्च संगठन है। अपने स्थानीय
सामुदायिक कानूनी केंद्र का पता लगाने के लिए
www.fclc.org.au पर जाएँ और "Find a CLC"
पर क्लिक करें या 1300 792 387 पर कॉल करें